

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने वृत्तचित्र का अवलोकन किया

लखनऊ: 9 मई, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्री जनरल वी0के0 सिंह द्वारा तैयार किये गये वृत्तचित्र का अवलोकन किया। वृत्तचित्र में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण झलकियाँ एवं स्वयं जनरल वी0के0 सिंह द्वारा यमन में किये गये राहत कार्य एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में कुछ अंश भी दिखाये गये हैं। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री महेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाति सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राज्यपाल ने वृत्तचित्र की प्रशंसा करते हुये जनरल वी0के0 सिंह को धन्यवाद एवं बधाई दी तथा कहा कि जनरल वी0के0 सिंह ने जीवंत वृत्तचित्र का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि वृत्तचित्र का अनावरण महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर किया जा रहा है जो पराक्रम और युद्ध कला के लिये जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन प्रेरणा देने वाला है। सोलहवीं शताब्दी में महाराणा प्रताप जैसा कोई योद्धा नहीं हुआ। महापुरुषों को सीमा में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि वे पूरे देश के लिये आदर्श होते हैं।

श्री नाईक ने कहा कि 10 मई को जनरल वी0के0 सिंह का जन्म दिवस है। 10 मई भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इसी तिथि को भगवान गौतम बद्ध का जन्म हुआ था तथा मेरठ में पहला स्वतंत्रता समारोह भी शुरू हुआ था। अपने इतिहास से देश को परिचित होने की आवश्यकता है। जो देश अपने इतिहास को समझता है उसी का विकास होता है। हमें प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश को उत्तम ही नहीं सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेना चाहिये। राज्यपाल ने 'चरैवेति! चरैवेति!!' श्लोक का अर्थ समझाते हुये कहा कि चलते रहने में सफलता का मर्म निहित है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप जयंती की बधाई देते हुये कहा कि महाराणा प्रताप राष्ट्र गौरव के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप, गुरु गोविन्द सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष स्वाभिमान और सम्मान की प्रतिमूर्ति तथा देश के वास्तविक हीरो थे। ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करके देश का हर नौजवान महाराणा प्रताप, गुरु गोविन्द सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसा बन सकता है। जनरल वी0के0 सिंह का वृत्तचित्र रचनात्मकता प्रदर्शित करता है। जब व्यक्ति रचनात्मकता की ओर बढ़ता है तो वह उतना ही ऊर्जावान और लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है। जनरल वी0के0 सिंह का जन्म संघर्षों से भरा रहा है। 1971 के युद्ध में उनकी अग्रणी भूमिका ने सेना को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया। सेवानिवृत्ति के बाद वे सर्वाधिक मतों से जीतकर सांसद बने। मंत्री रहते हुये यमन में उन्होंने राहत कार्य किया जहाँ अमेरिका भी नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि जनरल वी0के0 सिंह के सफल निर्देशन में भारतीयों सहित अन्य देश के लोगों को भी यमन से सफलतापूर्वक सुरक्षित लाया गया।

केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्री जनरल वी0के0 सिंह ने महाराणा प्रताप के 477वें जन्म दिवस की बधाई देते हुये कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन त्याग, बलिदान, शौर्य का जीवन है जो सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने राज्यपाल श्री राम नाईक एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुये कहा कि नेतृत्व उचित मार्गदर्शन करता है तो सब मिलकर साथ चलते हैं और देश आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हमें यही संकल्प लेना चाहिये।



